



SCHOOL OF COMMERCE & MANAGEMENT

Department of Management**NOTICE****Ref No: AJU/SCoM/DoM/2023/419**

Date: 21.11.2023

This is to notify all the students that Department of Management (MBA), under the banner of SPARK: The Marketing club, will organise a one-day seminar on **Happy Life approach**, "PRERNA: **The Motivation**", on 24th November 2023 from 9:00 am onwards at JEH Auditorium. It is mandatory for all the MBA Students to attend.

For further details, contact: Dr. Charu Wadhwa and Dr. Subrato Dey.



Dr. Urvashi Thakur
HoD, MBA
Department of Management

HoD, MBA
School of Commerce and Management
ARKA JAIN University, Jharkhand

Copy for the information:

1. PS to the Vice-Chancellor
2. PS to the Director
3. PS to the Registrar
4. Controller of Examinations
5. In charge Web services for Website Updation
6. Notice Board
7. Guard File

ONE-DAY SEMINAR ON HAPPY LIFE APPROACH, PRERNA: THE MOTIVATION

Dates of Event	24-11-2023
Name of the Event	Seminar on Happy life approach, PRERNA: The Motivation
Type of the Event	Seminar
Organized by	ARKA JAIN University
Coordinated by	Dr. Charu Wadhwa, Dr. Subrato Dey, Associate Professors, Department of Management (MBA), School of Commerce and Management
No. of Participants	39

OBJECTIVE: The objective of the seminar on Happy life approach, PRERNA: The motivation, was to communicate to the students that happiness is the key factor of their success. The seminar aimed to let the students know that Happiness and Good Life are important ingredients of meaningful human existence.

DETAILS: It was a one-Day seminar, which was devoted to acknowledging the importance of happiness in life. There were sessions, Videos, story-telling, sharing of real life experiences to learn that self-well-being and happiness are significant for living. This seminar was organized by Department of Management (MBA), under the banner of SPARK: The marketing club, School of Commerce and Management.

TAKEAWAY (OUTCOMES): The students understood that happiness is the biggest human strength and it is important to stay happy in all circumstances. Happiness and Good Life are important ingredients of meaningful human existence. Happiness in itself interacts with various dimensions of good life—be it morality, health (mental and physical), wealth, knowledge, responsibility, self-fulfilment, etc.

Poster of the Event



Figure 1: Poster of the Seminar on Happy life approach, PRERNA: The Motivation

Photos of the Event



Figure 2: Group Photo



Figure 3: Speaker Dr. Charu Wadhwa Sharing her Knowledge



Figure 4: Interaction with Students



Figure 5: Geo Tag Photo of the Event

List of participants



Department of Management (MBA)

School of Commerce and Management

SPARK – The Marketing Club

One Day Seminar on Happy Life Approach,

“PRERNA – THE MOTIVATION”

Date: 24-11-2023

S. No.	Enrollment Number	Name of the Student	Signature
1	AJU/230994	Rahul Majhi	Rahul
2	AJU/230945	Vishal S Patel	Vishal Patel
3	AJU/230083	Boby Singh	Boby
4	AJU/230553	Aditya Gya	Aditya
5	AJU/230034	Narayan Kumar	Narayan
6	AJU/231959	RAHUL PATRA	Rahul
7	AJU/231966	Anjali Kumari	Anjali Kumari
8	AJU/231785	Spandan Tiwari	Spandan
9	AJU/231915	Shruti Kumari	Shruti
10	AJU/231992	Subham K. Pradhan	Subham
11	AJU/231036	Gagandeep Kaur	Gagandeep
12	AJU/230458	Satpreet Kaur	Satpreet K.
13	AJU/231294	Anjali Mishra	Anjali
14	AJU/231880	Priya Kumari	Priya

Signature of Event Coordinators

Subra K. Pradhan

Signature of HoD

One Day Seminar on Happy Life Approach,
"PRERNA - THE MOTIVATION"

Date: 24-11-2023

S. No.	Enrollment Number	Name of the Student	Signature
15	AJU/232057	Priyanka Singh	Priyanka Singh
16	AJU/230576	Rama Kumari	Rama Kumari
17	AJU/231948	Nidhi Agarwal	Nidhi
18	AJU/230668	Shelar Singh	Shelar Singh
19	AJU/230145	Priya Sharma	Priya Sharma
	AJU/232100	Ashmit K. Singh	Ashmit
44	AJU/231311	Sharadindub	Sharad
29	AJU/230970	Shruuti Inalhari	Shruuti
30	AJU/231414	Subrata Das	Subrata Das
31	AJU/222082	Vaibhav Raj	V. Raj
32	AJU/220103	Poity Kumari	P. Kumari
33	AJU/221507	Satya Narayan Sahu	Satya Narayan Sahu
34	AJU/221660	Smita Kumari	Smita
35	AJU/221599	Rampreet Kaur	Rampreet Kaur
36	AJU/221790	Dimple Agarwal	Dimple Agarwal
37	AJU/221704	RIYA DAN	Riya Dan.
38	AJU/220383	Swati Kumari	Swati Kumari

Signature of Event Coordinators

Signature of HoD

Media Coverage

अरका जैन यूनिवर्सिटी में 'खुशहाल जीवन दृष्टिकोण' से अवगत हुए एमबीए के छात्र

by Lagatar News — 25/11/2023 in कोल्हाण प्रमंडल, जमशेदपुर

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑनलाइन केंद्र और कुपोषण उपचार केंद्र, से संबंधित शिकायत वॉट्सऐप नंबर :- 9142622194 पर भेजें

अरका जैन यूनिवर्सिटी में 'खुशहाल जीवन दृष्टिकोण' से अवगत हुए एमबीए के छात्र

by Lagatar News — 25/11/2023 in कोल्हाण प्रमंडल, जमशेदपुर

Jamshedpur (Anand Mishra) : अरका जैन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्रबंधन विभाग (एमबीए) की ओर से हैप्पी लाइफ अप्रोच, प्रेरणा : द मोटिवेशन विषयक एकदिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन 'स्पार्क: द मोटिवेशन' के बैनर तले किया गया। मार्केटिंग क्लब, कार्यक्रम के वक्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉ० चारु वाधवा और डॉ० सुब्रतो डे थे, उन्होंने विषयवस्तु पर विस्तृत चर्चा करते हुए छात्र-छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही हैप्पी लाइफ अप्रोच से सम्बंधित कई आवश्यक टिप्स दिये।

इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : चार साप्ताहिक ट्रेनें 26 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच रहेगी रद्द

अरका जैन यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस सेमिनार का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को यह बताना था कि खुशी उनकी सफलता का प्रमुख कारक है। साथ ही एक उद्देश्य यह भी था कि यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं यह समझ सकें कि खुशी और अच्छा जीवन सार्थक मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण तत्व हैं। सेमिनार में विभागाध्यक्ष डॉ० उर्वशी ठाकुर एवं सहायक प्रोफेसर मुकुल पांडे समेत विभाग के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।


प्रभात खबर

जमशेदपुर, रविवार
26.11.2023

अरंका जैन विवि में हुआ सेमिनार



जमशेदपुर. अरंका जैन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्रबंधन विभाग की ओर से हैप्पी लीडफ अप्रोच, प्रेरणा : द मोटिवेशन विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. इसका आयोजन "स्पार्क : द मोटिवेशन" के बैनर तले किया गया. कार्यक्रम के वक्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉ चारु वाधवा और डॉ सुब्रतो डे थे. उन्होंने विषयवस्तु पर विस्तृत चर्चा करते हुए छात्र-छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी. साथ ही हैप्पी लीडफ अप्रोच से संबंधित टिप्स दिये. सेमिनार उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं यह समझ सकें कि खुशी और अच्छा जीवन सार्थक मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं. सेमिनार में विभागाध्यक्ष डॉ उर्वशी टाकुर एवं सहायक प्रोफेसर मुकुल पांडे समेत विभाग के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

हिन्दुस्तान

जमशेदपुर, रविवार, 26 नवंबर 2023

अरका जैन में हैप्पी लाइफ अप्रोच से अवगत हुए छात्र

जमशेदपुर। अरका जैन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्रबंधन विभाग (एमबीए) की ओर से हैप्पी लाइफ अप्रोच, प्रेरणा : द मोटिवेशन विषयक एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन स्पार्क : द मोटिवेशन के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम के वक्ता एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चारु वाघवा और डॉ. सुब्रतो डे थे। उन्होंने छात्र-छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही हैप्पी लाइफ अप्रोच से संबंधित कई टिप्स भी दिए।